

Ref: Company Scrip Code: 535693 Dated: 23.09.2021

To.

The Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, 1st Floor Dalal Street, Mumbai - 400001

Dear Sir,

Subject: Key financial Highlights of June-21 Quarter Results.

Following are the key financial highlights of the un-audited financial results for the quarter end June 30, 2021 announced on September 22, 2021.

We are enclosing a copy of newspaper in those results of June-21 Quarter are published.

We request you to take the note of the same.

Thanking You

For Brahmaputra Infrastructure Limited

Raktim Acharjee Whole Time Director

Din: 06722166

CIN:L55204DL1998PLC095933



Brahmaputra Infrastructure Limited

Announces Unaudited Financial Results for Quarter Ended 30.06.2021

New Delhi, 22nd September 2021 : Brahmaputra Infrastructure announced its un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 on 22nd September 2021.

Standalone financials at a glance (figures in INR Lacs):

Description	Q1FY 22	Q1FY 21	Increase/
			Decrease in
			Percentage
Revenue from operations	2,532.40	1,976.29	28.13 % Increase
Total Income	2,809.34	2,030.78	38.33 % Increase
Profit before tax before	124.40	65.07	91.17 % Increase
exceptional item			
EPS	0.45	(1.50)	

Consolidated financials at a glance (figures in INR Lacs):

Description	Q1FY 22	Q1FY 21	Increase/
			Decrease in
			Percentage
Revenue from operations	2,532.40	1,976.29	28.13 % Increase
Total Income	2,809.34	2,030.78	38.33 % Increase
Profit before tax before	123.73	63.12	96.02 % Increase
exceptional item			
EPS	0.43	(1.54)	

Notes:

1. Work-in-progress (Inventories), Trade receivables, Retention/withheld by clients Receivables amounting to ₹ 215.12 crore, ₹ 94.41 crore, ₹ 45.67 Crore respectively, as at 30 June 2021, which represent various claims raised in the earlier years in respect of projects substantially closed and where the claims are currently under negotiation//s / discussions / arbitration / litigation. Based on legal opinion / past experience with respect to such claims, management is of the view that the aforementioned majority of the balances are fully recoverable.

Your company is under continuous process to recover the above receivables from the concern department/ customers which make possible to improve the fund flow of the company and helpful in further expansion.

Your company has maintaining a strong order book with good margins, we are in under process for bidding the new tenders on PAN India basis to build the order book size further.

- 2. Company (M/s Brahmaputra Infrastructure Limited) is in continuous process for Debt reduction of the company , in last FY 2020-21 Company already successfully implemented two OTS with Consortium of lenders (HDFC Bank & State Bank of India), Now Both the lenders are no more part of Consortium of lenders. Your company is in under process to settle the fund based exposure with (Axis Bank).
- 3. At the end of quarter 30th June 2021 your company have an net worth of an total amount Rs. 140.61 Crore.
- 4. At the end of quarter 30th June 2021 your company have an o/s recoverable in form of Income tax refunds, sale tax refunds and other misc. refund of an total amount ₹ 23.65 Crore. We are in under continuous process to recover the respective outstanding refunds from concern departments.

FINANCIAL EXPRESS

FORM No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Change of Registered Office of DOCASAP INDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Telangana" Before the Central Government, Hon'ble Regional Director, Northern Region

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of DOCASAP INDIATECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

having its registered office at House No 13. Street No 11, 2nd Floor, Geeta Colony, New Delhi,

application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Petitioner Company held on September 10, 2021 to enable the Petitioner Company to change its Registered Office from the National Capital Territory of Delhi to the State of Telangana. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www. mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Hon'ble Regional Director, Northern Region, Delhi at 22.09.2021the address B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication

Registered office address: House No 13, Street No 11, 2nd Floor, Geeta Colony, New Delhi, North Delhi - 110031, India.

Rakhi Maheshwari

Date: 22.09.2021

Form No.5

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL 600/1, University Road, Hanuman Setu Mandir,

Lucknow (Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh and

Uttarakhand) SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

Date: 15.09.2021 Summons to defendants under Section 19(3) of The

Recovery of Debts due to Banks and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Original Application No. 113 of 2019

Bank of Baroda Vs. M/s Kuldeep Rice Mill & Anr. 1. M/s Kuldeep Rice Mill, through its proprietor office at Vill. Sarai Shree Bux. Post- Kewalpur Baretha.

. Kuldeep Singh, S/o Sri Maharaj Bahadur Singh, R/o Vill. Sarai Shree Bux. Post- Kewalpur. Baretha. Raebareli, U.P.Defendants

In the above noted Original application you are required to file reply in Paper Book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on 02.02.2022 at 10:30 A.M. Failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar Court Seal Debts Recovery Tribunal, Lucknow

and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office:-249, 1017, Tenth Floor, Cyber Heights, TC 2/2 and TC 5/5, Vibhuti Khand, Gomb Nagar, Lucknow - 226 010 / Or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV Gurugram, Haryana, Place: LUCKNOW Date: 23-09-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)

Mr. Mohd Ajaz,

Mrs. Shabnam,

Prospect No. 925325, 797171)

Mr. Mohd

IST LIMITED

CIN: L33301HR1976PLC008316 Regd. Office: Dharuhera Industrial Complex, Delhi-Jaipur Highway, District Rewari - 123106 (HR) H.O. - A-23. New Office Complex, 2rd Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024 PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that following Share certificates are stated to have been lost/misplaced and the registered shareholder had applied to the Company for duplicate share certificate. Folio Name of the Shareholder Distinctive numbers No. of

No.		Certificate No.	From	To	Shares
5086	Chandrika S Sanghvi / Shatilal P Sanghvi	59234-36	3525656	3525730	75
Any po claim(entert	: is henceforth cautioned against de erson(s) who has/have any claim in (s) with the Company within 15 day ained. Thereafter, the Company will cate shall stand cancelled.	respect of the said sh as from this publication	nare certifica on, after whi	ite should lo ich no clain ficate and th	edge such n shall be ne original T Limited
Date of the second	: New Delhi : 21.09.2021			Bhupind Company	Sd/- ler Kumar Secretary

Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcemen Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upor the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. I connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of **Demanc** Notice i.e. 20-Sept-2021 and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

	Borrower(s) / Guarantor(s)	Date and Amount	(immovable property)
9		20-Sept-2021 Rs. 7,16,991/- (Rupees Seven Lakh Sixteen Thousand Nine Hundred Ninety One Only)	

If the said Borrowers fail to make payment to IIFLHFL as aforesaid, IIFLHFL may proceed against the above secure assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Ambition Tower, Plot No. D 46-B, Offices No. 307 To 312, Malan Ka Chauraha, Agrasen Circle, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur - 302001 ar or **Corporate Office**: IIFL Tower, Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Date: 23-Sept-2021 Place: Jaipur Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited



Brahmaputra Infrastructure Limited

Read, Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037 CIN: L55204DL1998PLC095933 Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2021

	D. W. J.	(6)	Quarter ended			
SI. No.	Particulars	30-Jun-21 Reviewed	31-Mar-21 Audited	30-Jun-20 Reviewed	31-Mar-21 Audited	
1	Total Income from operations (net)	2,809.34	9,289.72	2,030.78	16,288.85	
2	Total Expenses	2,684.94	7,955.91	1,965.71	15,790.31	
3	Profit/(loss) before exceptional items and tax	124.40	1,333.81	65.07	498.54	
4	Exceptional items	(5.73)	1,123.01	501,60	411.85	
5	Profit/(loss) before tax	130.13	210.80	(436.53)	86.69	
6	Total Comprehensive Income for the year	130.19	239.08	(436.60)	35.11	
7	Paid- up Equity share capital	2,901.84	2,901.84	2,901.84	2,901.84	
	a) Basic (Rs.)	0.45	0.82	(1.50)	0.12	
	b) Diluted (Rs.)	0.45	0.82	(1.50)	0.12	

Raktim Acharjee

Whole Time Director Din: 06722166

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 🌑 Central Bank of India Regional Office Astley Hall, Rajpur Road, Dehradur

Date: 22.09.2021

Place: New Delhi

Where as, the undersigned being the authorised officer of the Central Bank of India, under the Securitization and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned against account stated here in to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notices. The borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned against each account. The borrower's attention is invited to provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. The borrowers / Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Central Bank Of India, Kashipur Branch for the amount and interest thereon

Appendix IV (See Rule 8(1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

S. No	Name of the Branch & Borrowers	Description of Immovable Property	Date of Demand Notice	Outstanding Amount
1.	Sh. Shyam Lal Kashyap, H.No. 05, Pant Enclave, Girital Road, Near	Equitable Mortgage of Residential House situated at Khasra No. 37/1 Vill- Jaspur Khurd Presently Mohalla-Jaspur Khurd Nagar Nigam House No. 5 Pant Enclave Girital Road, Kashipur, Distt- U.S. Nagar (UK) Area-2430 sqft in the name of Mrs. Omwati Kashyap W/o Sh. Shyam Lal Kashyap. Boundries of Property: East: House Sh. Shakti Pant, West: House Shri Sunil Saxena, North: 20 ft Road, South: Bagh Chandra Dutt Pant.	Date of Possession	Rs. 8,90,360.00 as on 26,04,2021 + interest & other expenses
2		Equitable Mortgage of Double Story Residential House situated at Khasra No. 250 min, Mouza Jaspur Khurd, Kashipur, Distt- U.S. Nagar (UK) Area- 1008 sqft in the name of Mr. Akshay Kashyap S/o Sh. Shyam Lal Kashyap. Boundries of Property as per Sale Deed: East: House of seller, West: House of Seller, North: Rasta 20 feet, South: Aarazi Seller.	Date of Possession	Rs. 24,55,575.00 as on 26,04,2021 + interest & other expenses

Branch: Kashipur Equitable Mortgage of Residential Land situated at Khasra No. 301/5 26.04.2021 16,33,898.00 Min, Mouja- Dhakiya Kalan, Tehsil- Kashipur, Distt- U.S. Nagar (UK) Borrower: Mr. Akshay Kashyap S/o Sh. Area Part No. 1- 4330.48 sqft and Part No. 2- 2640 sqft total area Shyam Lal Kashyap, H.No. 05, Pant as on 6970.48 sqft in the Name of Mr. Akshay Kashyap S/o Sh. Shyam Lal Enclave, Girital Road, Kashipur, Distt-26,04,2021 + interest & U.S. Nagar (UK)- 244713. Co-Boorowr: Kashyap, Boundries of Property as per Sale Deed; Part 1- East- Khet 17.09.2021 other expenses 1. Mrs. Pooja Joshi W/o Mr. Akshay Kisan Singh, West: Aarazi Laxman Singh, Nortyh: Aarazi Nina Sethi Kashyap, H.No. 05, Pant Enclave, South: Khet Ramlal. Part 2- East: Khet Kisan Singh, West: Aarazi Girital Road, Kashipur, Distt- U.S. Nagar Laxman Singh, North- Pakka Rasta, South- Aarazi Pushpa Rani. (U.K.)- 244713. 2. Mrs. Omwati Kashyap W/o Sh. Shyam Lal Kashyap, H.No. 05, Pant Enclave, Girital Road, Kashipur, Distt- U.S. Nagar (U.K.)-244713. Guarantor: Mr. Sanjay Singh S/o Sh. Vijay Pal Singh Singh, Durga, Anaj Mandi, Patel Nagar, Kashipur, Distt- U.S. Nagar (U.K.) 244713

Authorised Officer Date -22.08.2021 Place: Kashipur

DEMAND NOTICE

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) reac with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice ishereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under-

(Prospect No. 789017) 16-SEP-2021 Rs.22,29,934/- (Rupees Twenty Mr. Sachin Yadav, Mrs. Radha Yadav Two Lakh Twenty Nine Thousand Nine Hundred

All that piece and parcel of the property being: Flat No - U.G.-1, (M.I.G.), Front Side Upper measuring 600 sq.ft., Plot NO- C-65, Dlf Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad, Pincode: 201001, U.P.

Appt No Amulya Sun 4-1108, 11th Floor

Migsun Roof area measuring 599 sq.ft.,

Khasra No 5/4/51, Rajnagar Extn.

Ghaziabad Pincode: 201010, Uttar Pradesh

Flat No 1201, Admeasuring 1545 Sq. Ft 12Th Floor Block K2, Eco Village-1 Plot No-08, Sec-1, Greater Noida, Uttar Pradesh 201303 18-SEP-2021 Rs. 19,78,741/- (Rupees Nineteen All that piece and parcel of the property being: First Lakh Seventy Eight Thousand Seven Hundred Forty Floor, Flat No.B-29/21, Admeasuring 1139 Sg.Ft., Tdi City, Kundli Sonipat, Haryana

17-SEP-2021 Rs. 5,57,654/- (Rupees Five Lakh All that piece and parcel of the property being: Fifty Seven Thousand Six Hundred Fifty Four Only) | Prop N0-23-A measuring 50 sq. yds. Khasra

No-24/10, Rani Garden Shashtri Nadagr, Vill-Khureji Khas Shahdara , Delhi, 110031, India

1,38,734/-(Rupees One Lakh Thirty Eight Thousand

18-SEP-2021 Prospect No. 933035 Rs. 4,23,528/- All that piece and parcel of the property being: (Rupees Four Lakh Twenty Three Thousand Five House/Property no.427 land area measuring Hundred Twenty Eight Only) Prospect No. 902297 62.708 sq.mtr(75 sq. yrds) with Roof Rights ,

Thousand Seven Thousand and Seventy Two only) Deh 1908-09) of Village Pooth Khurd Delhi Mr. Harish Kumar Sawita, 18-SEP-2021 Prospect No.869634 Rs. 28,69,632/- All that piece and parcel of the property being

(Rupees Twenty Eight Lakh Sixty Nine Thousand Six H.No. 253 area admeasuring 75 sq.yrds on Hundred Thirty Two Only) Prospect No.933746 Rs. Khasra no.80/17 built on Plot no.1 and 2 4,15,471/-(Rupees Four Lakh Fifteen Thousand Four Situated at Village Burari Abadi known as Hundred Seventy One Only) Prospect No. 925827 Rs. A-Block Baba Colony Delhi, India 1,14,227/-(Rupees One Lakh Fourteen Thousand Two

Hundred Twenty Seven Only) Mr.Rajeev, 20-SEP-2021 Prospect No.814421 Rs. 9,88,275/- All that piece and parcel of the property being: Mrs.Mamta (Rupees Nine Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundred | H No-E-589-B First Floor area admeasuring Seventy Five Only) Prospect No. 918886 Rs. 13.65 sq.mtr Pratap Vihar Ghaziabad (Prospect No. 814421 and 918886) 2,71,923/-(Rupees Two Lakh Seventy One Thousand Uttar Pradesh, India Nine Hundred Twenty Three Only)

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured

assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi / Or Branch Office:- A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 / Or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV Gurugram, Haryana.



POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the under signed being the Authorised Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice, to the following borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice, with interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.

the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the

dates as mentioned below. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/liability and

interest and other expenses thereon due from the borrowers as mentioned here in below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

Name & Address of the Borrower Outstanding Description of /Guarantors/ Date of Demand / No.

Amount (₹) immovable property Possession Notice Branch:-Arjunganj, Arjunganj, Village-Sarsawan, Post-Arjunganj, Lucknow-226002, Ph: 7565008631

Borrower: M/s Abdulla Poultry Prop. Mohd. EM of property situated at Area: 860.00 Sq.mtr. Rs. Kadir Add: Gata No. 540, Rasoolpur in Khasra no. 540 Village Rasoolpur 29,70,883.90 Tikaniyamau Gosaiganj Mohanlalganj, Tikaniyamau, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, + interest & Lucknow-226501 other Distt- Lucknow. Owner: Mohd. Kadir S/o Mohd. Guarantors: Mr. Ravi Shanker Yadav R/o expenses

H.No. 404, Hydel Colony, Police Station. w.e.f. Balance part of Khasra no. 540; West: agriculture Hazratgani, Lucknow-226001 01.04.2021 land of Shamshad; North: Chak Road; South: Demand Notice: 14.06.2021 Possession Notice: 17.09.2021 Agriculture land of Shafket Husain. Borrower: M/s Taha Poultry Prop. Mrs. EM of property situated at Area: 979.84 Sq.mtr. Rs. Aashma Bano Add: Gata No. 540, Rasoolpur in Gata No. 535 Village Rasoolpur Tikaniyamau, 34,92,930.50 Tikaniyamau Gosaiganj Mohanlalganj, Pargana & Tehsil Mohanlalganj, Distt- Lucknow. + interest & Lucknow-226501 other Owner: Mohd. Kadir S/o Mohd. Idreesh. Guarantors: Mohd. Kadir R/o Gata No. 540 expenses Bounded by (as per sale deed): East: Land of Rasoolpur Tikaniyamau Gosaigan w.e.f. Mewalal: West: Part of Khasra no. 535: North: Mohanlalganj, Lucknow-226501 01.04.2021 Kharanja Rasta & other House; South: Part of Demand Notice: 14.06.2021

Date: 23.09.2021; Place: Lucknow

Authorised Officer, Bank of Baroda

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the

proposed Public Auction (of pledged ornaments - NPA accounts) by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 23rd & 27th September 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 13th & 14th October 2021. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client.

Kohli & Sobti Advocates, A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the

proposed Public Auction (of pledged ornaments - NPA accounts) by our client. M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 23rd & 24th September 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 8th & 9th October 2021. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client. Kohli & Sobti Advocates,

A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that certificates for the undermentioned Equity Shares of the companies mentioned herein have been lost and holder of the said equity shares has applied to the company for issue of duplicate share certificates.

Folio No and name: P00104 Ramesh Chander Patel Borosil Renewables Limited Name of Company Borosil Ltd Regd. Office 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra-Kurla Complex, Bandra, (East), Mumbai, Maharashtra-400051 No of Shares 2000 2000 Certificate No. 00000745 & 00002088 12890 Dist. No. 0000879401 to 0000879900 10073031 to 0024588004 to 0024589503 10075030

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates. Any person who has any claim in respect of the said share certificates should lodge such claim with the company or its Registrar and Transfer agents Universal Capital Securities Pvt Ltd C101 247 Park LBS Marg Vikhroli (W) Mumbai Maharashtra -400083 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained, and the company shall proceed to issue duplicate share certificates

FORM No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Change of Registered Office of HCENTIVETECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED from "the National Capital Territory of Delhi" to the "State of Telangana"

Before the Central Government, Hon'ble Regional Director, Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act. 2013 and clause (a) of

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of HCENTIVETECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED

having its registered office at 13/82, Vikram Vihar, Lajpat Nagar-IV, New Delhi, Delhi-110024, CIN:U74140DL2009PTC195869Petitioner Company

Notice is hereby given to the General Public that the Petitioner Company proposes to make

application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of the Petitioner Company held on September 10, 2021 to enable the Petitioner Company to change its Registered Office from the National Capital Territory of Delhi to the State of Telangana. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www. mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Hon'ble Regional Director, Northern Region, Delhi at the address B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi, within fourteen days of the date of publication of this Notice with a copy to the Petitioner Company at its Registered Office at the address mentioned

Registered office address:13/82, Vikram Vihar, Lajpat Nagar-IV, New Delhi, Delhi-110024,

For and on behalf of hCentive Technology India Private Limited

Manish Garg Director

DIN: 05189496

Date : 22.09.2021

Place: New Delhi

UPPER INDIA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPANY LIMITED

CIN: U27104PB1961PLC002397 REGISTERED OFFICE: DHANDARI INDUSTRIAL FOCAL POINT, SHERPUR KALAN, LUDHIANA, PUNJAB 141010 Telephone: 0161-4603655, Email: secretarial@upperindiasteel.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY Notice is hereby given pursuant to the provision of section 124 (6) and other

applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the act") and Investor Education And Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) rules, 2016 (IEPF Rules") as amended.

In terms of provision of the act and IEPF rules, all equity dividend which remains unpaid/ unclaimed for a period of 7 consecutive years is required to be transferred by the company to IEPF, established by the central government and all underlying shares in respect of which dividend remains unpaid/ unclaimed for 7 consecutive years also needs to be transferred to demat account of IEPF authority along with unpaid dividend. The company has already sent the communication to all the concerned

shareholders who have not claimed any dividend during last 7 years i.e. from financial year 2011 to 2012 onwards at the latest available address. Accordingly shares held by the concerned shareholders as per the above mentioned provisions are liable to be transferred to Demat account of IEPF Authority.

The concerned shareholder (s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF authority may note that upon transfer of shares to IEPF authority the original shares certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and the deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form to the extent of shares notice to be transferred shall stand debited from the shareholders account.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to IEPF authority including all the benefits account on such shares, if any, can be claimed from the IEPF authority by making an application in form IEPF-5 online at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the form along with the required supporting documents specified in the said from IEPF-5 to the RTA for verification of your claims.

For any gueries on the aforesaid subject the shareholders are requested to contact the company or company's Registrar and share transfer agent with a request giving necessary details (i.e Folio No. DP-ID & client ID no. (if any). current address and contact numbers) at the earliest at the following addresses.

The Company Secretary UPPER INDIA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPANY LIMITED Registered Office: DHANDARI INDUSTRIAL FOCAL POINT, SHERPUR KALAN, LUDHIANA, **PUNJAB PB 141010**

E-mail: secretarial@upperindiasteel.com

Phone No: 0161-4611655, 4603655,

8360181533

Place: Ludhiana

(Unit: UPPER INDIA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPANY LIMITED) D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110 020. Email: parveen@skylinerta.com investors@skylinerta.com Phone: 011-26812682

Registrar & Share Transfer Agent:

Skyline Financial Services

Private Limited.

For UPPER INDIA STEEL MANUFACTURING & ENGINEERING COMPANY LIMITED Vishakha Malhotra Company Secretary

financialexp.epapr.in

Place: DELHI / NOIDA Date: 23-09-2021

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of

North Delhi - 110031, India. CIN: U72900DL2019FTC357863Petitioner Company

Notice is hereby given to the General Public that the Petitioner Company proposes to make

of this Notice with a copy to the Petitioner Company at its Registered Office at the address

For and on behalf of **DocASAP India Technologies Private Limited**

Director Place: New Delhi DIN: 06881507

IDBI BANK LIMITED (1) IDBI BANK Branch Add.: IDBI BANK LTD, 19, Ground Floor, Surya Kiran Building, KG MARG, New Delhi 110001

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION OF GOLD ORANAMENTS Offers are invited for the public auction of the gold ornaments, pledged in favour of the Bank, for the purpose of recovering the dues owed by the Borrower(s) to the Bank, as detailed below. The auction will be conducted at

SI. No.	Account No.	Name of the Borrower & Address	Description of gold ornaments pledged	Gross weightin Grams.	EMD in Rs.	Reserve price in Rs.
1.	0011671100001274	RAJENDRA SINGH BISHT	studd 2	5.80	17181/-	23000/-

be displayed in the notice board of KG Marg Branch from 15.09.2021 to 30.09.2021 and interested parties may refer the same. A bidder participating in the auction shall be deemed to have full knowledge of the aforesaid terms and conditions of sale. Last date of submission of the Bid is 30.09.2021. **Authorized Officer**

Place: KG Marg Date: 22.09.2021 IDBI Bank, KG Marg Branch.

DEMAND NOTICE

Massa of the Bassassasia)

Mr. Manish Kumar Mrs.

Shweta Priya, Mr. Anand

Kumar (Prospect No.

Rani (Prospect No. 816737)

Sanjeev Haldar, Suparna

General Store, Subhankar

Halder (Prospect No. 949597)

Mr. Vikram Yadav, Mrs.

Anuradha Yaday, Mrs. Rachna

Yaday (Prospect No. 948361,

and 943996)

902297)

Mrs.Laxmi.

Mr. Pramod Dabas.

Mr.Joginder Singh,

Mrs.Anguri Devi,

Mr.Manoj Kumar

(Prospect No. 869634,

933746 and 925827)

Mrs.Sheela, Balraj Singh

(Prospect No. 933035.

824083)

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) (Formerly known as India. Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Damand Nation | Description of secured seest (immovable of

Name of the Borrower(s). Demand Notice		Description of secured asset (immovable property)		
/Guarantor (s)	Date & Amount	All that piece and parcel of the property being: Mustakil No		
Mr. Vijay Kumar, Mr. Balram Manjhi, Mrs. Meena Devi (Prospect No. 827702)	20-Sep-2021 Rs. 5,58,374/- (Rupees Five Lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred Seventy Four Only)	66 Kila No 15/2 (1-19) 16(2-10) 17(8-, 18/1 6-13 Total 19 Kanal 2 Marle , Area Admeasuring 60 Sq. Yards., Waka Mauja Tilpat, Waka Moja , Faridabad, Faridabad, 121003, Haryana, India		
Mr. Rahul, Mrs. Munni Devi, Mr. Schamvir (Prospect No. 785272)	20-Sep-2021 Rs.11,75,659/- (Rupees Eleven Lakh Seventy Five Thousand Six Hundred Fifty Nine Only)	All that piece and parcel of the property being: Appt No Sun -3 -12A03, 13th Floor, area measuring 875 sq.ft., (super built up area), Migsun Roof, Khasra No 5/4/51, Rajnagar Extn., Ghaziabad, Pincode: 201017, Uttar Pradesh		
Mr. Vijender Singh, Mrs. Daya Rani, Mrs. Murti Devi (Prospect No. 843776)	20-Sep-2021 Rs. 25,94,528/- (Rupees Twenty Five Lakh Ninety Four Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)	All that piece and parcel of the property being: Property Bearing No N-9/11, admeasuring 183 Sq. yards, Kh No 1 Ect/91, Gali No 14 Village Ghonda Chauhan Banger, Braham Puri, Pincode: 110053, Delhi, India		
Varun Variety Store, Mrs. Anjali Aggarwal, Mr. Devender Aggarwal, Mrs. Kamlesh Aggarwal, Mr. Vinay Aggarwal (Prospect No. 840874)	20-Sep-2021 Rs. 16,82,850/- (Rupees Sixteen Lakh Eighty Two Thousand Eight Hundred Fifty Only)	All that piece and parcel of the property being: Property measuring 50 sq yrds, Village Bhangel Begumpur., Pargana Dadri, Gautam Budh Nagar, Noida, Pincode: 201304, Uttar Pradesh, India		
Mr. Raj Kumar Gupta, Mrs.	20-Sep-2021 Prospect No. 841049	All that piece and parcel of the property being : 2Nd Floor		

Back Side Without Roof Rights, admeasuring 25 Sq. yards, Rs. 6,29,481/- (Rupees Six Lakh | No. 841049 & 941044) Twenty Nine Thousand Four Property Bearing No D-99 Old No D-122, Kh No 193/3 Min. Hundred Eighty One Only) Prospect | East Vinod Nagar, Village Khichripur Shahdra, Pincode: No. 941044 Rs. 55,832/- (Rupees 110092, Delhi, India Fifty Five Thousand Eight Hundred Thirty Two Only)

20-Sep-2021 Rs. 38,28,509/-

Nine Lakh Twenty Seven Thousand

All that piece and parcel of the property being: Entire First Floor without roof rights, Out of Built Uo Property Bearing No RZ-169/2 (Rupees Thirty Eight Lakh Twenty measuring 86 sq yrds, Part of Khasra No 491, Village Nasirpur, Eight Thousand Five Hundred Nine Colony Known as Sadh Nagar-II, Palam Colony, New Delhi Mr. Bhal Singh, Mrs. Niharika 20-Sep-2021 Rs. 14.38.397/-All that piece and parcel of the property being: Unoit No-A8-504, admeasuring 553.383 Sq. ft., Solera 2, Sec-107 (Rupees Fourteen Lakh Thirty Eight Thousand Three Hundred Ninety Gurgaon, 5Th Floor, Pincode: 122001, Harvana, India

Min Village Khaioori Khas in The Abadi Of B Block Gali No 11

Mrs. Suparna Haldar, Mr. 21-Sep-2021 Rs. 8,60,828/- (Rupees All that piece and parcel of the property being: 3Rd Floor, Eight Lakh Sixty Thousand Eight With Roof Rights Property No-121, measuring 50 sq yds Kh Hundred Twenty Eight Only) No-22/24/2 New Lahore Shastri Nagar, Village Khureji Khas Shahdara, Delhi, 110031, Delhi, India 21-Sep-2021 Prospect No. 948361 All that piece and parcel of the property being : Property No. Rs. 29,27,351/- (Rupees Twenty B-105, measuring 450 sq. ft., Old No., 1049/8 Khasra No 90/1

950611) Three Hundred Fifty One Only) Khajoori Khas, Illaga, Shahdara, Delhi, 110094, India Prospect No. 950611 Rs. 1,07,657/ (Rupees One Lakh Seven Thousand Six Hundred And Fifty Seven Only) If the said Borrowers fall to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HFL Plot No. 30/30E. Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi, A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16.

Noida, Gautam Budh Nagar - 201301, Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector -4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010/or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Place: Delhi, Noida, Ghaziabad Date: 23-09-2021

Demand Notice Date and Amount 17-SEP-2021 Rs.12,28,015/- (Rupees Twelve Lakh All that piece and parcel of the property being Mr. Abhiney Kumar, Twenty Eight Thousand Fifteen Only) Mrs. Anuradha,

Mr. Dinesh Kumar Bhatt, 18-SEP-2021 Rs. 17,37,911/- (Rupees Seventeen All that piece and parcel of the property being Mrs.Basanti Devi Bhatt, Lakh Thirty Seven Thousand Nine Hundred Eleven (Prospect No. 720080) Only)

Mr. Pawan Kumar. Mrs.Babita Devi (Prospect No. 722276) Mr. Lakhvinder Singh, Mrs.Asha Kaur

(Prospect No. 828151) Mr.Manoj Kumar Sharma 18-SEP-2021 Prospect No.851731 Rs. 7,45,882/- All that piece and parcel of the property being (Rupees Seven Lakh Forty Five Thousand Eight Flat No. 22 on 1st floor area admeasuring Mrs.Rajeshwari Sharma, (Prospect No. 851731 Hundred Eighty Two Only) Prospect No.943996 Rs.

Seven Hundred Thirty Four Only)

42 sq.yrds Without Roof Rights on Khasra No. 1144 Gunjan Apartment Ranjit Vihar, Milak Majra situated at Village Loni Pargana Loni Tehsil Loni District Ghaziabad Uttar

Pradesh, India. Rs. 22,46,772/- (Twenty Two Lakhs Forty Six Two Side Open out of Khasra no.149/134 and New no.127 situated in the Old Laldora (Abadi-

Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)

of my client CAPARO FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED (CFSL), a company registered under provisions of Company Act 1956, having its office at 1007-1010, 10" Floor, Kailash Building, 26 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001, e-mail: dheeraj.vashisht@caparofinancial.com. Phone: 011-43251111, that some unscrupulous persons, with ulterior motive to earn wrongful gain and/or to cheat and/or mislead companies/individuals who are desirous of taking loan, are misrepresenting themselves as CFSL. These persons misrepresent themselves to be association/affiliation by using CFSL's name, trademark, and domain name etc. A police complaint has already been lodged on 03.08.2021 with Barakhamba Road Police

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed on behalf

CFSL is dealing and handling its affairs from its offices at Delhi and Mumbai only and has no other place of work. Genuineness of a transaction can

transaction done by anyone with such unscrupluos persons Any Inquiry/information relating thereto may be referred to the following:

Station, New Delhi.

be verified at Phone: 011-43251111 dheerai.vashisht@caparofinancial.com. Our Client shall not be responsible for any

JANENDER KUMAR CHUMBAK (Advocate) Off.: 5, Siri Fort Road, (LGF), Delhi -110049 Ph: 01126267410, 01126267409 Email: janender@aloindia.com

Kashipur, Distt- U.S. Nagar (U.K.).

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in th

DEMAND NOTICE

respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice ishereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days

from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of

payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under: Name of the Borrower (s) / Guarantor (s) Demand Notice Date and Amount | Description of secured asset (immovable property)

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act.

18-SEP-2021 Prospect No 925325 Rs.3,26,643/- All that piece and parcel of the property being: House

Rupees Three Lakh Twenty Six Thousand Six Hundred
Forty Three Only) Prospect No 797171 Rs.16,65,665/Rupees Sixteen Lakh Sixty Five Thousand Six Hundred
Sixty Five Only)
Haiderganj Jadid, Ward- Balakganj, Lucknow, Pincode: 226001, Uttar Pradesh

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and

available, to redeem the secured assets.

Idreesh. Bounded by (as per sale deed): East:

Possession Notice: 17.09.2021 Khasra no. 535

New Delhi

Date: 22.09.2021

कमीशनिंग, मौजूदा वीएसएस इन्क्रा के साथ

रेलाटेला

इंटीग्रेशन, संघालन एवं अनुरक्षण"। आईआरईपीएस ई-निविदा सूचना सं RCIL_ER_21-22_1294A, दिनांक: 30.07.2021 (ई-निविदा सं. रेसटेस/ओटी/पु.से./एवक्य्/2020. 21 / वीएसएस / 1294 दिनांक 30.06.2021) को वापिस लिया जा रहा है। एक नया संशोधित निविदा दस्तावेज RCIL_ER_21-22_1294A, दिनांक 21.09.2021 (ई-निविदा सं रेलटेल/ओटी/पु.धे. / एचक्य् / 2021-22 / वीएसएस / 1294ए - दिनांक 21.09.2021) के रूप में अपलोड़ किया गया है। बोलीदाताओं से निवेदन है कि वे संशोधित निविदा दस्तावेज दिनांक : 21.09.2021 (शुद्धिपत्र-4) के अनुसार सभी प्रामाणिकताएं जमा करें आगानी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट पर ही अपलॉड किये जाएंगे।

DIPR/C/9310/2021

7, 18 & 28 अक्टूबर 2021

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 22.09.2021

Particulars

Total Expenses

Exceptional items

a) Basic (Rs.)

b) Diluted (Rs.)

Date: 22.09.2021

Place: New Delhi

श्री बलराम मांझी.

श्रीमती मीना देवी

श्रीमती मन्नी देवी.

श्री विजेन्दर सिंह.

श्री सोहनवीर

(प्रॉस्पेक्ट नं. 827702)

(प्रॉस्पेक्ट नं. 785272)

(प्रॉस्पेक्ट नं. 843776)

(प्रॉस्पेक्ट नं. 840874)

(प्रॉस्पेक्ट नं. 841049 एवं

941044)

श्री मनीश कुमार,

श्रीमती श्वेता प्रिया,

(प्रॉस्पेक्ट नं. 824083)

श्रीमती निहारिका रानी,

श्रीमती संपर्ना हलदर.

स्टोर, शुभांकर हलदर

श्री विक्रम यादव,

श्रीमती रचना यादव

तिथि: 23.9.2021

(प्रॉस्पेक्ट नं. ९४९५९७)

श्रीमती अनुराधा यादव,

(प्रॉस्पेक्ट नं. 816737)

श्री संजीव हलदर, सुपर्ना जनरल

(प्रॉस्पेक्ट नं. 948361, 950611)

स्थानः दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद

प्लॉट नं, 98. उद्योग विहार, फेज-IV, गडगाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

श्री आनंद कुमार

श्रीमती कमलेश अगरवाल, श्री विनय

श्री राजकुमार गुप्ता, श्रीमती मीना,

Profit/(loss) before tax

Paid- up Equity share capital

Total Income from operations (net)

Profit/(loss) before exceptional items and tax

Total Comprehensive Income for the year

दक्षिण रेलवे

ई-निविदा सूचना भंडार शाखा, एस. रेल तिरुचिरापल्ली मंडल ई-निविदा सं. 95215453 तय 28.10.2021 को

वरि. मं. सामग्री प्रबंधक, भंडार शाखा, एस. रेल, तिरुचिरापल्ली द्वारा आईआरईपीएस पोर्टल के माध्यम से निम्न भंडारों की आपर्ति के लिये खली निविदा आमंत्रित है। निविदा सं.: 95215453 तिथि 14.9.2021– मात्रा

1) 5000 मी., 2)1500 मी. 3) 1500 मी., 4) 800 मी., 5) 2250 मी. 6) 1500 मी. विवरणः केवल पीवीसी इंस्युलेटेड आर्मर्ड, अनस्क्रीन्ड, भूमिगत रेलवे सिग्नलिंग कॉपर-19 कोर x 1.5 वर्ग एमएम आरडीएसओ विनिर्देशन सं. आईआरएसः एस-63/2014 (रेव-4) के अनुसार निविदा की तय तिथिः 28.10.2021 (14:30 बजे)

अधिक विवरणों के लिये वेब पोर्टल www.ireps.gov.in>ETender>view Tenders. देखें।

वांछित स्थलः तिरुचिरापल्ली जंक्शन

कृपया ध्यान रहे कि केवल आईआरईपीएस पोर्टल के माध्यम से जमा की गई ऑनलाइन कोटेशन ही स्वीकार की जायेगी तथा प्रस्ताव डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित होनी चाहिये।

> वरि मंडल सामग्री प्रंबधक (तिरुचिरापल्ली जंवशन)

Follow us on : 🕑 twitter.com/@GMSRailway

फॉर्म सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निर्देशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

हंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में मेसर्स अवेली ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट

तिषिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय 412. बीधी मंजिल डीडीए बिल्डिंग-1, जिला केंद्र, जनकप्री, नई दिल्ली-110058 के मामलें में वाधिकाकर्वा वत्कल मेल, नई दिल्ली (हिंदी समाचार पत्र) दिनांक 29.05.2021 में पहले विज्ञापन का हवाला देते हुए, इस प्रकाशन के माध्यम से सामान्य जनता को सचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकत कार्यालय को "**चन्दीय**

राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तेलंबाना राज्य" में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत बूधवार, 26 मई, 2021 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्र सरकार के समझ कंपनी की संस्था बहि निवमावली में परिवर्तन करने की गाविका प्रस्तृत किया जाना प्रस्तावित हैं। कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या तो एमसीए--21

पोर्टल (www.mca.gov.in) पर वितरित कर सकता है या इस सवना के प्रकाशन की वारीख़ से चौदह दिनों के अंदर क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, 2 पत्नोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 को अपने हित की प्रकृति और विरोध के कारण बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियाँ भेजें अथवा पंजीकत ढाक द्वारा प्रेषित करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर मेजें। मेसर्स अवेली ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूसंस प्राइवेट लिषिटेंड जिसका पंजीकृत कार्यालय 412, चौथी मंजिल,

बीबीए विक्थिय-1, जिला केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 कृते और आवेदक की ओर से

अवेली ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉक्यूशंस प्राइवेट लिमिटेख दामोदर अवेली स्थानः नई विल्ली विविद्य: 22.09.2021 DIN: 06546201

सिम्भावली ट्रांसपोर्ट कैरियर्स (सीआईएन : U63013DL2005PTC136203) सार्वजनिक सचना प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार. उत्तरी क्षेत्र पीठ. दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के उपबन्ध (क) के मामले में

सिम्भावली ट्रांसपोर्ट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. 50/10, गली नं. 1. गडोदिया रोड. नर्ड बस्ती, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110005, भारत पर है, के मामले में

एतद्वारा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में स्थानान्तरित करने के लिए 31 अगस्त, 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक (उत्तरी क्षेत्र) को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दुसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से सिम्भावली ट्रांसपोर्ट कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं. 50/10, गली नं. 1, गडोदिया रोड, नई बस्ती, आनन्द पर्वत, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110005, भारत

अतुल शर्मा डीआईएन : (05190119)

स्थान : हापुड़

निदेशक टी-5, मकान नं. 102, सिविटेक, रामप्रस्थ ग्रीन, सेक्टर-7, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश-20001 तिथि : 21 सितम्बर, 2021

जयपुर क्षेत्र-द्वितीय, गांधी नगर, जयपुर -मेल:-ace.region2jaipur@yahoo.com फोन नं.:- 0141-2702700 क्रमांक:- अमुअ-गा/जय/2021-22/8958-86

नंगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमें प्रक्रिया द्वारा निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत निविदा एवं निविदा प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in ए nttp://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। एन.आई.बी. य.बी.एन कोड

> अतिरिक्त मुख्य अभियन्त जनस्वाथ्य अभियांत्रिकी विभा जयपुर क्षेत्र-द्वितीय, जयपु

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड एव एस सी सी (एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेंड की अनुषरी) (HSCC) (भारत सरकार का उद्यम) −6ए, सैक्टर−01, नोएडा−201301 A Miniratna Co

ई-निविदा आमंत्रण सूचना दिनांकः 22.09.202 एनसीडीसी की ओर से एनबीसीसी द्वारा एचएससीसी के माध्यम से "एनसीडीसी, नई दिल्ली में **ईपीर्स मोड** पर "टर्नकी आधार" पर बायो-सेफ्टी लेवल-3 (बीएसएल-३) प्रयोगशालाओं की योजना डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, संस्थापन, जांच, कमीशनिंग, कैलिब्रेशन, प्रमाणन, प्रदर्शन, सत्यापन तथा अन्य सहायक कार्यों " के लिए वॉल्यूम-1 (एनआईटी /पीक्यू दस्तावेज) में विनिर्दिष्ट अनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले योग्य आवेदकों से आनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (निविदा सं एचएससीसी/एसईएस/बीएसएल-3/एनसीडीसी/2021)। अनुमानित लागत- ६. 45.00 करोड पूर्णता अवधिः 21 माह, निविदा दस्तावेज 23.09.2021 से ऑनलाइन उपलब्य हैं और निविदाएं जमा करने की औतम तिथिः 14.10.2021 को 15.00 बजे।

विस्तृत एनआईटी ई-निविदा पोर्टल http://www.tenderwizard.in/HSCC, एचएससीसी वेबसाइट www.hsccltd.co.in तथा सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इस प्रकाशन का शस्त्रिपत्र, यदि कोई होगा तो उसे केवल कथित वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा और प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक, एचएससीसी (इंडिया) लि कृते एनबीसीसी, नई दिल्ली की ओर से

0542-2224819

पूर्वोत्तर रेलवे नीलामी सूचना सं. 10/2021-22 माह अक्टबर 2021 का ई-नीलामी कार्यक्रम

सभी संभावित क्रेताओं को ऑनलाइन पब्लिक आक्शन के द्वारा रही सामग्रियों के बिक्री में भाग लेने हेत आमंत्रित किया जाता है। ई-नीलामी तिथियाँ अधीनस्थ लॉट संपर्क फोन नं. 12, 20 & 30 अक्टूबर 2021 उपमुसाप्र / डिपो / गोरखपुर 0551-2283558 7, 19 & 28 अक्टूबर 2021 वपमुसाप्र/डिपो/इज्जतनगर 0581-2518138 13, 22 & 29 अक्ट्बर 2021 वमंसाप्र / लखनऊ 0522-2233113

8, 21 & 29 अक्टबर 2021 वमंसाप्र / इज्जतनगर 0581-2518104 सामग्री का प्रकार:-- स्क्रैंप रेल, कास्ट आयरन, मेल्टिंग, एम.एस., निराकृत वैगन, कोच ए लोकोमोटिव, टर्निग, बोरिंग, फेरस, नॉन—फेरस (कापर, एल्युमीनियम, बैटरीज आदि) नीलामी प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण नहीं होने पर नीलामी प्रक्रिया दूसरे (अगले) दिन भी जारी रहेगी नीलामी कैटलाग, प्रक्रिया एवं बिक्री शर्ते www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है।

वमंसाप्र / वाराणसी

यह सुचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर भी देखा ज सकता है। प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक/गोरखपुर मुजाघि ∕ एस=52

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. नं. 09794845955 पर एसएमएस करें। ट्रेनों में बीड़ी /सिगरेट न पियें

फार्म संख्या आईएनसी-26

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] डीओसीएएसएपी इण्डिया टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय को

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली" से "तेलंगाना राज्य" में बदलना केन्दीय सरकार के समक्ष, माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

डीओसीएएसएपी इण्डिया टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में

जिसका पंजीकृत कार्यालय : हाऊस न० 13, स्ट्रीट न० 11, द्वितीय मंजिल, गीता कालोनी, नई

दिल्ली -110031, इण्डिया में स्थित है। CIN: U72900DL2019FTC357863याचिकाकर्त्ता कम्पनी

कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 के तहत आम जनता को एतदद्वारा सचना प्रदान की जाती है कि याचिकाकर्ता कम्पनी की सितम्बर 10, 2021 को सम्पन्न विशेष सामान्य साधारण बैठक में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोसियेसन में पारित विशेष प्रस्ताव बदलाव के सम्बन्ध में पृष्टीकरण हेतु केन्दीय सरकार को आवेदन का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली से तेलंगाना राज्य में बदला जा सके। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र में एमसीए-21 के पोर्टल (www. mca.gov.in) पर अथवा कारण को अपने विरोध के समर्थित शपथ पत्र द्वारा उसके विरोध में स्वभाव/अभिरूचि एवं विरोध के आधारों को माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पते बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 दिल्ली को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रसत्त करे, साथ में उसकी एक प्रतिलिपि याचिकाकर्त्ता कम्पनी के निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय : हाऊस न० 13, स्ट्रीट न० 11, द्वितीय मंजिल, गीता कालोनी, नई दिल्ली 110031, इण्डिया

डीओसीएएसएपी इण्डिया टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से उनके लिए

Brahmaputra Infrastructure Limited

CIN: L55204DL1998PLC095933

Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2021

Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037

30-Jun-21

Reviewed

2,809,34

2,684.94

124.40

(5.73)

130.13

130.19

0.45

0.45

2,901.84

मांग सुचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा

प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम. 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की

धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन

हाउसिंग फाइनांस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनयम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सुचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई

संबंधित मांग सुचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदृद्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता

है कि मांग सचना की तिथि से भगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर

वरुण वेराईटी स्टोस, श्रीमती अंजली 🛮 20 सित., 2021: रु. 16,82,850/- (रु. सोलह लाख | सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति माप 50 वर्ग

भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सुचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण इस प्रकार है:

20 सित., 2021, रु. 558374/- (रु. पांच लाख

अन्ठावन हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र)

पचहत्तर हजार छः सौ उन्सठ मात्र)

बयासी हजार आठ सौ पचास मात्र)

(रु. पचपन हजार आठ सौ बत्तीस मात्र)

लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ नौ मात्र)

अडतीस हजार तीन सौ सत्तानवे मात्र)

हजार आठ सौ अट्टाईस मात्र)

श्रीमती दया रानी, श्रीमती मर्ति देवी 🏻 चौडानवे हजार पांच सौ अटठाईस मात्र)

राखी माहेश्वरी निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 22.09.2021

Year ended

31-Mar-21

Audited

16,288.85

15,790.31

498.54

411.85

86.69

35.11

0.12

0.12

2,901.84

Raktim Acharjee

Din: 06722166

Whole Time Director

(Rs. In Lakh except EPS)

30-Jun-20

Reviewed

2,030.78

1,965.71

65.07

501.60

(436.53)

(436.60)

2,901.84

(1.50)

(1.50)

For and on behalf of Board of Directors

13) कुल 19 कनाल 2 मरले, एरिया माप 60 वर्ग यार्ड्स

वाका मौजा तिलपत, वाका मौजा फरीदाबाद, फरीदाबाद-

12ए03, 13वां तल, एरिया माप 875 वर्ग फीट (सुपर

निर्मित एरिया), मिग्सन रूफ, खसरा नं. 5/4/51, राजनगर

माप 183 वर्ग यार्डस, ख.नं. 1 एक्ट/91, गली नं. 14, ग्राम

घोण्डा चौहान बांगर, ब्राह्मण परी, पिनकोड-110053,

यार्डस, ग्राम भंगेल बेगमपर, परगणा दादरी, गौतमबध

नगर, ग्राम खिचड़ीपुर, शाहदरा-110092, दिल्ली, भारत

के अधिकार के बिना, निर्मित सम्पत्ति सं. आरजेड-169/2

में, माप 86 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 491 का भाग, ग्राम

नसीरपुर, साध नगर-II नाम से विदित कॉलोनी, पालम

माप 553.383 वर्ग फीट, सोलेरा 2, सेक. 107, गुड़गाँव

सम्पत्ति सं. 121, माप 50 वर्ग यार्डस, ख.नं. 22/24/2.

न्यू लाहौर शास्त्री नगर, ग्राम खुरेजी खास, शाहदरा, नई

5वां तल, पिन-122001, हरियाणा, भारत

दिल्ली-110031, दिल्ली, भारत

नगर, नोएडा, पिन-201304, उत्तर प्रदेश, भारत

एक्स्टें.. गाजियाबाद-201017. उत्तर प्रदेश

121003, हरियाणा, भारत

20 सित., 2021, रु. 11,75,659/- (रु. ग्यारह लाख सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः अपार्ट. नं. सन-3-

20 सित., 2021ः रु. 25,94,528/- (रु. पच्चीस लाख सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति सं. एन-9/11.

20 सित.. 2021: प्रॉस्पेक्ट नं. 841049. रु. सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः 2रा तल. बैंक साईड.

6,29,481/- (रु. छः लाख उन्नतीस हजार चार सौ बिना छत के अधिकार के, माप 25 वर्ग यार्ड्स, सम्पत्ति सं.

इक्यासी मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. 941044, रु. 55832/- 99, पुराना नं. डी-122, ख.नं. 193/3 मिन, ईस्ट विनोद

20 सित., 2021: रु. 38,28,509/- (रु. अड़तीस सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पूर्ण प्रथम तल, छत

20 सित., 2021: रु. 14,38,397/- (रु. चौदह लाख सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः युनिट नं. ए8-504,

21 सित. 2021, रु. 8,60,828/- (रु. आठ लाख साठ) सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः छत के साथ 3रा तल,

21 सित. 2021, प्रॉस्पेक्ट नं. 948361, रु. सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः सम्पत्ति सं. बी-105,

29,27,351/- (रु. उन्नतीस लाख सत्ताईस हजार तीन माप 450 वर्ग फीट, पुराना नं. 1049/8, ख. नं. 90/1

सौ इक्यावन मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. 950611, रु. मिन, ग्राम खजूरी खास, बी ब्लॉक, गली नं. 11, खजूरी

| 1,07,657/- (रु. एक लाख सात हजार छः सौ | खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094, भारत की |

यदि उक्त ऋगधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋगधारकों की

जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागृ होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय:** प्लॉट नं. 30/30 ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में,

मोती नगर, नई दिल्ली, ए-1सी एवं ए-1डी, 2रा तल, नोएडा, सेक. 16, नोएडा, गौतमबुध नगर-201301, ऑफिस नं. 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो

टावर, प्लॉट नं. सी-1, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर,

DIN: 06881507

Quarter ended

31-Mar-21

Audited

9,289.72

7,955.91

1,333.81

1,123.01

210.80

239.08

0.82

0.82

2,901.84

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि अर्थात् 20 सित. 2021 को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण इस प्रकार है:

तिभत परिसम्पति (अचल सम्पति) का नाम एवं राशि श्रीमती बिशाना देवी रु. ७,16,991/- (रु. सात लाख सोलह हजार नौ डी/जी/28, ब्लॉक डी, एरिया माप 350 वर्ग फीट (प्रॉस्पेक्ट नं. 807831) वसुन्धरा कुटुम्ब, बिलवा कलॉन, टोंक रोड चोकी धानी के निकट, जयपुर 302020

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफ ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभू परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय**ः एम्बिशन टावर, प्लॉट नं. डी-46-बी ऑफिस नं. 307 से 312, मलान का चौराहा, अग्रसेन सर्किल, सुभाष मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। स्थान : जयपुर, तिथि : 23 सित. 2021 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिं

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 56/2021

ऋण वसुली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1983 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने ढायरी संख्या 513 दिनांक: 17,09,202

केनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक) बनाम श्रीमती अंजू एवं अन्य सेवा में, राकेश कुमार पुत्र मंगत कश्यप निवासीः मकान नं0 46, औरंगाबाद रानीपुर,

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध 😿 82,57,944.44 /- की वस्तुली हेत् ओ०ए० सं० ५६ / २०२१ संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो वि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 17.09.2021 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तृष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 10.11.2021 को आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसवे अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हों, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी। ट्रिब्युनल के आदेशानुसा

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरावून

फार्म संख्या आईएनसी-26

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] एचसेनटिव टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली" से "तेलंगाना राज्य" में बदलना

केन्दीय सरकार के समक्ष, माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एचसेनटिव टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 13/82, विक्रम विहार, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली, दिल्ली-110024

CIN:U74140DL2009PTC195869याचिकाकर्ता कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 2013, की धारा 13 के तहत आम जनता को एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि याचिकाकर्त्ता कम्पनी की सितम्बर 10, 2021 को सम्पन्न विशेष सामान्य साधारण बैठक में कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोसियेसन में पारित विशेष प्रस्ताव बदलाव के सम्बन्ध में पुष्टीकरण हेतू केन्दीय सरकार को आवेदन का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली से तेलंगाना राज्य में बदला जा सके। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो. वह निवेशक शिकायत प्रपत्र में एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर अथवा कारण को अपने विरोध के समर्थित शपथ पत्र द्वारा उसके विरोध में स्वभाव/अभिरूचि एवं विरोध के आधारों को माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पते बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 दिल्ली को इस सुचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर

पंजीकृत कार्यालय : 13/82, विक्रम विहार, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली, दिल्ली-110024, इण्डिया एचसेनटिव टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से उनके लिए

(A) IDBI BANK

स्थित बैंक के परिसर में आयोजित की जाएगी।

खाता नंबर

1. 0011671100001274

30.09.2021 है।

स्थान: केजी मार्ग

दिनांकः 22.09.2021

प्रसत्त करे, साथ में उसकी एक प्रतिलिपि याचिकाकर्त्ता कम्पनी के निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय

मनीश गर्ग निदेशक DIN: 05189496

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। नीलामी दोपहर 12रू00 बजे के बाद केजी मार्ग शाखा

नीलामी बैंक द्वारा निर्धारित बिक्री के नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसकी एक प्रति 15.09.2021 से 30.09.2021 तक केजी

मार्ग शाखा के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी और इच्छुक पक्ष इसे संदर्भित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले

बोलीदाता को बिक्री के पूर्वोक्त नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी होना समझा जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि

उधारकर्ता का नाम

और पता

राजेन्द्र सिंह

गिरवी सोने के

आभूषणों

का विवरण

studd 2

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, 19, भूतल, सूर्य किरण भवन,

केजी मार्ग, नई दिल्ली 110001

सकल

5.80

प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') सेबी/एचओ/एमआरडी/डीएसए/सीआईआर/पी/2016/110 तिथि 10 अक्टूबर, 2016 अनुपालन में निकास प्रस्ताव (''एक्जिट सर्क्युलर'') की सार्वजनिक घोषणा का संवर्धन मै. जीपीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड

CIN:U31300HR1980PLC010998 पंजी. कार्या:: धारुहेरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली जयपुर हाईवे, धारुहेरा, जिला रेवाड़ी टेली.: 011-24694291-92, ईमेल आईडी: istgroup.ho@gmail.com

यह निकास प्रस्ताव सार्वजनिक उद्घोषणा (सार्वजनिक उद्घोषणा का संवर्धन) का संवर्धन मै. डिलक्स एसोसिएट्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-23, न्यू ऑफिस कॉम्प्लैक्स, 2रा तल, डिफेंर कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 में है (''प्रवर्त्तक''), मै. जीपीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड (''जीपीसी अथवा ''कम्पनी'' अथवा ''ईएलसी'') के प्रवर्तकों में एक द्वारा निकास परिपत्र के अनुसार जीपीर्स के सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का अवसर देने के लिये जारी की जा रही है। इस संवर्धन कं 13 सितम्बर, 2021 को फाइनांसियल एक्स्प्रैस (सभी संस्करण), जनसत्ता (दिल्ली) में प्रकाशित मल सार्वजनिक उद्घोषणा तिथि 13.9.2021 ["मूल पीए"] के साथ जोड़कर पढ़ा जाए।

मूल पीए में मै. डिलक्स एसोसिएट्स एलएलपी की शेयर धारिता अनजाने में टाइफोग्रैफिकल त्रुटि कारण 11,46,200 इक्विटी शेयर्स (35.47%) की जगह 11,46,100 इक्विटी शेयर (35.46%) वर्णित थी। अद्यतन जानकारी इस प्रकार है:

जीपीसी की वित्तीय तथा अन्य जानकारीः

i) कम्पनी का नामः जीपीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड (CIN:U31300HR1980PLC010998) ii) पंजीकृत कार्यालयः धारुहेरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली जयपुर हाईवे, धारुहेरा, जिला रेवाड़ी iii) शेयर धारिताः 31 मार्च, 2021 को जीपीसी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 323.14 लाख जिसका प्रतिनिधित्व रु. 10/- प्रति के 3231407 पूर्णतः प्रदत्त शेयरों द्वारा किया जाता है। जीपीसी द्वार निर्गत कुल 32,31,407 इक्विटी शेयरों में 29,20,800 इक्विटी शेयर्स (90.39%) प्रवर्तकों द्वारा धारि हैं। हम/मैं डिलक्स एसोसिएटस एलएलपी, प्रवर्तक 11.46,200 इक्विटी शेयर्स (35.47%) धारि करते हैं। सार्वजनिक शेयरधारकों रु. 3,10,607 इक्विटी शेयर्स (9.61%) धारित हैं।

31 मार्च, 2021 को जीपीसी में 1171 सार्वजनिक शेयरधारकों का फोलिओ था। इस संवर्धन सार्वजनिक सुचना को हमारी मुल सार्वजनिक उद्घोषणा तथा सभी शेयरधारकों को प्रेषि प्रस्ताव पत्र के साथ जोड़कर पढ़ा जाये।साथ हीः यह उद्घोषणा सार्वजनिक सूचना बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध होना अपेक्षित है।

डिलक्स एसोसिएट्स एलएलपी के लिये

पदनामित पार्टन DPIN:00047372

तिथि: 21 सितम्बर, 2021

गौरव गप्त

♀ SB| भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, रिटेल

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015,

कोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 25.08.2021 को इस समाचार पत्र में

छपे विज्ञापन ई-नीलामी सचना के संदर्भ में

आम जनता को सचित किया जाता है कि

कर्जदार : मैसर्स शिरीन फूड्स लिमिटेड, (क्र.

सं. 1), नेक्स्ट जेन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. (क्र.सं.

3) और मैसर्स फलकोरिया स्टाईयल (क्र.सं. 4)

की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 27.09.

2021 को होनी थी, उपरोक्त खाते की सम्पत्ति

की प्रस्तावित ई-नीलामी को बैंक द्वारा स्थिगित

दिनांकः 22.09.2021, हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,

तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, रिटेल

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015,

फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi,05169@sbi.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 22.09.2021 को इस समाचार पत्र में

छपे विज्ञापन ई--नीलामी सूचना के संदर्भ में

आम जनता को सूचित किया जाता है कि

कर्जदार : मैसर्स श्री पन्ना स्टील्स (क्र.सं. 1),

की सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक 25.10.

2021 को होनी थी, उपरोक्त खाते की सम्पत्ति

की प्रस्तावित ई-नीलामी को बैंक द्वारा स्थिगित

दिनांकः 23.09.2021, हस्ता/- प्राधिकत अधिकारी.

श्री साँईनाथ शिक्षण प्रशिक्षण

संस्थान

ईशीपुर, महारानी पश्चिम सुलतानपु

(उ०प्र०) में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत

बी०एड० प्रवक्ता—०७ पद। योग्यता एव

वेतनमान-यू०जी०सी० तथा राज्य

विश्वविद्यालय एवं एन०सी०टी०ई०

मानकानुसार। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन

तिथि के 07 दिवसों के भीतर

महाविद्यालय के पते पर सम्पर्क करें।

COURT NOTICE

In The Court Of Sh Karan Aggarwal Civil

CNR NO: PBLD02-009824-2019

Next date: 15-11-2021

Publication Issued To: Gain Chand Shama

Address: R/o E-45, Backside Opposite

L.G. Shop, Nehru Ground, Near Anadour

In above titled case, the defendant(s)/

respondent (s) could not be served. It is

ordered that defendant(s)/respondent(s)

should appear in person or through

counsel on 15-11-2021 at 10.00 a.m. for

details logon to: https://highcourtchd.gov.in

Civil Judge (Junior Division) Ludhiana

ज्ञान विक Canara Bank 🐠

सामान्य प्रशासनिक अनुभाग,

क्षेत्रीय कार्यालय, सी-2, प्रथम तल,

महालक्ष्मी मॉल, क्षेत्रीय कार्यालय, माजियाबाद

गाखा / कार्यालय के लिए निम्न स्थानों पर

द्वेस्तरीय बोली के प्रणाली के तहत स्वीकृत

व्यावसायिक स्थान के लिए मालिकों से प्रस्ताव

भामंत्रित है। बैंक के विनिर्देशानुसार इसके निर्माण

तु भूतल 35 किलोबाट लोड के साथ तैयार होना

क्षेत्र का नाम: गांव रावली, मोदी नगर, क्षेत्रफल

?trs=district_notice&district=Ludhiana

(U/o 5 Rule 20 CPC)

Judge (Junior Division), Ludhiana

Himanshu Sharma

Gain Chand Shama

Kutia, N.I.T Faridabad

Suit For Declaration

:-प्राचार्य / विभागाध्यक्ष-01

/ निरस्त किया जाता है।

शेष पूर्वानुसार रहेगीं।

स्थान : नई दिल्ली

आवश्यकता

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

中10-9565930943

भारतीय स्टेट बैंक

/ निरस्त किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

UCO BANK

शाखा कार्यालयः ए-८, आचार्य निकेतन, सामने फाइन होम अपार्टमेन्ट्स फ़ेज्-१, मयूर विहार, (१८७७), दिल्ली-११००९१ कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभृति हित (प्रवर्तग), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत युको बैंक, मयूर विहार, दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 21.06.2021 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री मनीष कुमार एवं श्रीमती मोहिनी** देवी दोनों निवासी पलैट नं.16 सी, दूसरा तल, डीडीए एलआईजी पॉकेट-सी, द्वारका, नई दिल्ली-110078, को सचना में उल्लिखित राशि रु.९,78,320.19 (नौ लाख अठहत्तर हजार तीन सौ बीस रूपये उन्नीस पैसे मात्र) और उस पर 31.03.2021 से ब्याज एवं शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था कर्जदार / गारंटर के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढे जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 22.09.2021 को ले लिया है। कर्जदार / गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदहारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन—देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन रु.9,78,320.19 (नौ लाख अठहत्तर हजार तीन सौ बीस रूपये उन्नीस पैसे मात्र) सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर और उस पर 31.03.2021 से ब्याज एवं शुल्क के साथ युको बैंक, मयूर विहार, दिल्ली शाखा के प्रभार के भगतान के अधीन होगा।

ऋणियों / गारंटरों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नम्बर 16 सी, दूसरा तल, पॉकेट सी, फ्रेज-1, टाईप-6, सेक्टर-03, द्वारका, नई दिल्ली-110075. प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 22.09.2021

स्थानः गई दिल्ली

आरक्षित

रुपये में

23000/-

प्राधिकृत अधिकारी

ईएमडी

रु. में

17181/-

आईडीबीआई बैंक, केजी मार्ग शाखा

युको वैंक

COMMANDING OFFICER **NEW DELHI-10**

"Bids are invited for immediate sale of Two CNG buses DL1VA6923 and DL1VA6925 Tata-407, 18+1 seater both 2008 Model on 'As and Where' basis. Those who want to bid may come and collect the bid form and the same be submitted in a sealed envelope by 1500 Hrs on 28 Sep 21. Forms and other details are available in 'Welfare Bus Service Office', Contact no. 25687194/95 Extn 5685/7686

HQWAC(U) AF SUBROTO PARK

(वर्गफीट) 1200 - 1500. विवरण बैंक की वेबसाइट http://www.canarabank.com ਧਵ किया जा सकता है या बैंक की वेबसाइट र ढाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अतिम तिथि 10.10.2021 दोपहर 3 बजे तक और निविदा खुलने की तिथि अपराहन 4 बजे उसी दिन । इसके अलावा यदि कोई सुचना, शुद्धि पत्र शिधन होगा तो बँक की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। बैंक बिना कारण बताए आवेदन को

> वीकत / अस्वीकत करने का अधिकार अपने पार प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार किया जा सकता है। स्वानः गाणिपावाद।

एजीएम क्षेत्रीय दिनांक 22.09.2021 कार्यालय, गाणियायाव TMPORTANT

Mb 9450333558"

advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that



ट्रांसमिशन लिमिटेड अल्पकालीन निविदा सूचना

अलग-अलग ई-टेण्डर योग्य फर्मों से निम्नांकित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से संबंधित समस्त अभिलेख शर्तें ई-टेण्डर www.etender.up. nic.in पर दिनांक 29.09.2021 से 08.10.2021 को 17.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकेंगे। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार/ निरस्त

इलेक्ट्रॉनिक

राशिः 1000/- निविदा अपलोड करने का दिनांक- कब से 29.09.2021 कब तक 08.10.2021, निविदा खुलने का दिनांकः 09.10.2021 ''राष्ट्रहित में बिजली

विद्युत प्रेषण अभियन्ता फतेहपुर। पत्रांक

readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on ar advertisement in any manner whatsoever. उ.प्र. पावर

कॉरपोरेशन

निम्नलिखित कार्यों हेतू दो भागों में

कर सकते हैं। क्र.सं.: 1 निविदा संख्याः E-T-09/21-22 कार्य का संक्षिप्त विवरणः हंडिया एवं झूंसी से खागा तक 'बे' सामग्री के कैरेज का कार्य। धरोहर

बचायें ''। हस्ता./-

मांग सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनांस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सुचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

का नाम	एवं राशि	का विवरण
श्री अभिनय कुमार, श्रीमती अनुराधा (प्रॉस्पेक्ट नं. 789017)	-17 सित. 2021, रु. 12,28,015/- (रु. बारह लाख अट्ठाईस हजार पन्द्रह मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः अपार्ट. नं. अमूल्या सन ४- 1108, 11वां तल, मिग्सन रूप, एरिया माप 599 वर्ग फीट खसरा नं. 5/4/51, राजनगर एक्स्टें., गाजियाबाद, पिन कोड 201010, उत्तर प्रदेश
श्री सचिन यादव, श्रीमती राधा यादव (प्रॉस्पेक्ट नं. 781144)	16 सित. 2021, रु. 22,29,934/- (रु. बाईस लाख उन्नतीस हजार नौ सौ चौंतीस मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. यू.जी1 (एमआईजी) फ्रान्ट साइड ऊपरी भूतल, छत के अधिकार के बिना, एरिया माप 600 वर्ग फीट, प्लॉट नं. सी-65, डीएलएफ् कॉलोनी, भोपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, पिन कोड-201001 उ.प्र.
श्री दिनेश कुमार भट्ट, श्रीमती बसंती देवी भट्ट, (प्रॉस्पेक्ट नं. 720080)	18 सित. 2021, रु. 17,37,911/- (रु. सत्तरह लाख सैंतीस हजार नौ सौ ग्यारह मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. 1201, माप 1545 वर्ग फीट, 12वां तल, ब्लॉक के 2, ईको विलेज-1, प्लॉट नं 08, सेक. 1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र201303
श्री पवन कुमार, श्रीमती बबीता देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. 722276)	18 सित. 2021, रु. 19,78,741/- (रु. उन्नीस लाख अटहत्तर हजार सात सौ इकतालिस मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्रथम तल, फ्लैट नं. बी- 29/21, माप 1139 वर्ग फीट, टीडीआई सिटी, कुण्डली सोनीपत, हरियाणा
श्री लखविन्दर सिंह, श्रीमती आशा कौर (प्रॉस्पेक्ट नं. 828151)	17 सित. 2021, रु. 5,57,654/- (रु. पांच लाख सत्तावन हजार छः सौ चौवन मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः प्रॉप नं23-ए, माप 50 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 24/10, रानी गार्डन, शास्त्री नगर, ग्राम-खुरेर्ज खास, शाहदरा, दिल्ली-110031, भारत
श्री मनोज कुमार शर्मा, श्रीमती राजेश्वरी शर्मा, (प्रॉस्पेक्ट नं. 851731 तथा 943996)	18 सित. 2021, प्रॉस्पेक्ट नं. 851731, रु. 7,45,882/- (रु. सात लाख पैंतालिस हजार आठ सौ वयासी मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 943996, रु. 1,38,734/- (रु. एक लाख अड़तीस हजार सात सौ चौंतीस मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः फ्लैट नं. 22, 1ला तल, एरिय माप 42 वर्ग यार्ड्स, बिना छत के अधिकार के, खसरा नं. 1144 गुंजन अपार्टमेन्ट, रणजीत विहार, मिलक माजारा जो ग्राम लोनी परगणा लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., भारत मे स्थित है।
श्री प्रमोद डवास, श्री जोगिन्दर सिंह, श्रीमती शीला, बलराज सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. 933035, 902297)	18 सित. 2021, प्रॉस्पेक्ट नं. 933035, रु. 4,23,528/- (रु. चार लाख तैईस हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र) प्रॉस्पेक्ट नं. 902297, रु. 2246772/- (रु. बाईस लाख छियालिस हजार सात सौ बहत्तर मात्र)	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः मकान/सम्पत्ति सं. 427, भूमि एरिया माप 62.708 वर्ग मी. (75 वर्ग यार्ड्स), छत के अधिकार के साथ, दो साइड खुला, खसरा नं. 149/134 तथा नया न. 127 में जो ग्राम लालडोरा (आबादी-देह 1908-09) ग्राम पूंठ खुर्द दिल्ली में स्थित है।
श्री हरीश कुमार सवीता, श्रीमती अंगूरी देवी, श्रीमती लक्ष्मी.	18 सित. 2021, प्रॉस्पेक्ट नं. 869634, रु. 28,69,632/- (रु. अट्टाईस लाख उन्हत्तर हजार छ सौ बत्तीस मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. 933746, रु. 415471/- (रु. चार लाख पन्द्रह	सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः एच. नं. 253, एरिया माप 75 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 80/17 जो प्लॉट नं. 1 एवं 2 पर निर्मित है तथा ग्राम बराडी. ए–ब्लॉक. बाबा कॉलोनी के नाम से विदित

ऑस्पेक्ट नं. 933746, रु. 415471/− (रु. चार लाख पन्द्रह| है तथा ग्राम बुराङ़ी, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी के नाम से विदित| श्री मनोज कुमार हजार चार सौ इकहत्तर मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं. 925827, रु. आबादी, दिल्ली, भारत में स्थित है। (प्रॉस्पेक्ट नं. 869634, 933746 तथा 1,14,227/- (रु. एक लाख चौदह हजार दो सौ सत्ताईस 925827) श्री राजीव. 20 सित. 2021, प्रॉस्पेक्ट नं. 814421, रु. 9,88,275/- (रु.) सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः एच. नं. ई-589-बी, प्रथम श्रीमती ममता, नौ लाख अठासी हजार दो सौ पचहत्तर मात्र), प्रॉस्पेक्ट नं.| तल, एरिया माप 13.65 वर्ग मी., प्रताप विहार, गाजियाबाद, उत्तर (प्रॉस्पेक्ट नं. 814421 एवं 918886) 918886, रु. 2,71,923/- (रु. दो लाख इकहत्तर हजार नौ प्रदेश, भारत

एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय:** प्लॉट नं. 30/30 ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली अथवा शाखा कार्यालयः A-1 सी एवं ए-1डी, 2रा तल, नोएडा सेक. 16, नोएडा, गौतमबुध नगर-201301 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें। स्थानः दिल्ली/नोएडा हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमी

आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

तिथि: 23.9.2021

आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

अधिशासी खण्ड-

वि.प.ख.(फ.)/टेन्डर नोटिस दिनांक 22.09.2021

www.readwhere.com